

प्रेस नोट

पंजीकृत मुकदमा-

मु0अ0सं0 0350/2021 धारा 147/302/307 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना लंका वाराणसी

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधो की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर महोदय के निर्देशानुसार मै प्रभारी निरीक्षक महेश पाण्डेय मय हमराहियान के थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित मु0अ0सं0 0350/2021 धारा 147/302/307 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट की विवेचना व तलाश वांछित अभियुक्त में खाना होकर देखभाल क्षेत्र में बीएचयू कैम्पस से मालवीय चौराहे पर मौजूद था कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि साहब जिन अभियुक्तों ने फल बेचने वालों के उपर चाकू से हमला किया था जिसकी आप लोग तलाश कर रहे हैं उनका एक साथी बीएचयू कैम्पस से निकलकर सुंदरबगिया के पास आने वाला है तथा कहीं जाने की फिराक मे है अगर आप शीघ्रता करें तो वह पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर मै प्र0नि0 मय हमराह मय मुखबीर के साथ नरिया तिराहे से आगे बढ़कर सुंदरबगिया से पहले रुककर दुकानो की आड़ मे हम लोग इन्तजार करने गले कि कुछ ही देर मे एक व्यक्ति बीएचयू गेट के अन्दर से सुंदरबगिया के पास आता दिखाई दिया कि मुखबीर खास द्वारा इशारा कर बताकर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वालों ने तेजी फुर्ती से आगे बढ़कर घेरघार कर व आवश्यक बल प्रयोग कर समय हुये समय 13.20 पर कारण गिरफ्तारी बताते हुये पकड़ लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त –

घनश्याम राय पुत्र प्रदीप राय नि० दोनपाह सुखडेहरा थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान- सुंदरबगिया

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 26.06.2021 समय समय 13.20 PM

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम थाना लंका वाराणसी-

1. प्र०नि० महेश पाण्डेय
2. उ०नि० जयप्रकाश सिंह
3. हे०का० नागेन्द्र यादव
4. का०मु० अभ्युदय सिंह
5. का० आशीष तिवारी
6. का० उमंग सिंह